

वार्तालाप सी.डी. नं. 227, तारीख: 31.12.06, (आ.कृ.फा.)  
Disc.CD No.227, dated 31.12.06 at Adhyatmik Krishi Farm

**Kisi bachhey nay poocha:** *Baba, Ram-vali aatma kee mata gyaan may aa sakti hai? Baba nay kaha:* *Gyaan may aa sakti hai ki aa gayi hogi? Ram-vaali aatma kee mata janma deney vali shareeer ko, jis shareeer say itnaa badaa purusharth karke Narayan ban jaata hai vishwa ka maalik, us mata kee bhi toh visheshata hui na. Aisa shareeer roopi dhanush diya, jis dhanush say purusharth karke saarey vishwa ko jeet liya, toh mata koi saadhaaran hogi kya?*

किसी बच्चे ने पूछा – बाबा, रामवाली आत्मा की माता ज्ञान में आ सकती है?  
बाबा ने जवाब दिया – ज्ञान में आ सकती है कि आ गई होगी? रामवाली आत्मा की माता जन्म देने वाली शरीर को, जिस शरीर से इतना बड़ा पुरुषार्थ करके नारायण बन जाता है विश्व का मालिक, उस माता की भी तो विशेषता हुई ना। ऐसा शरीर रूपी धनुष दिया, जिस धनुष से पुरुषार्थ करके सारे विश्व को जीत लिया, तो माता कोई साधारण होगी क्या?

**A child asked:** Baba can the mother of Ram's soul enter the path of knowledge?  
**Baba replied:** Can it come or has it already come? The mother of Ram's soul- the one who gives birth to the body; the body, through which, he makes such great efforts and becomes Narayan, the master of the world; so there is a specialty in that mother also, isn't there? She gave him such a body-like bow, with which he made efforts and gained victory over the entire world. So will that mother be an ordinary mother?

**Kisi bachhey nay poocha:** *Asht dev kee sahyogi shaktiyan Dharmaraj ki sajaan khaati hain kya?*

**Baba nay uttar diya:** *Jo Asht dev hain voh Dharmaraj ki sajaan nahee khaatey.*

किसी बच्चे ने पूछा – अष्टदेव की सहयोगी शक्तियाँ धर्मराज की सजाएँ खाती हैं क्या?  
बाबा ने जवाब दिया – जो अष्टदेव हैं वो धर्मराज की सजाएँ नहीं खाते।

**A child asked:** Will the cooperative *shaktis* of the eight deities suffer the punishments of Dharmaraj?

**Baba replied:** The eight deities (*Asht Dev*) would not suffer the punishments of Dharmaraj.

**Kisi Bhai nay poocha:** *Baba Sangamyug may aur kitnaa samay padaa hai jee?*

**Baba nay kaha:** *Badee museebat hai. Baba kahtey hain Sangamyug suhaavana yug hai, maujon ka yug hai. Sangamyug jaisa auspicious yug koi hota hee nahee hai aur yahaan museebat padee hui hai, ek-ek second kab khatam hoga.*

**Bhai nay poocha:** *Kitnaa samay aur padaa hai?*

**Baba nay kaha:** *Haan, haan, vahee baat. Sau saal bataaye hain Sangamyug ko. Jyada*

*say jyada sau saal.*

**Bhai nay poocha:** *(Do hazaar) chattees may sau saal poorey hongey?*

*Baba nay uttar diya: Haan, ji.*

किसी भाई ने पूछा – बाबा संगमयुग और कितना समय पड़ा है जी?

बाबा ने कहा – बड़ी मुसीबत है। बाबा कहते हैं संगमयुग सुहावना युग है, मौजों का युग है। संगमयुग जैसा आस्पीसीअस युग कोई होता ही नहीं है और यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है, एक-एक सेकण्ड कब खतम होगा।

भाई ने पूछा – कितना समय और पड़ा है?

बाबा ने कहा – हाँ, हाँ, वही बात। सौ साल बताए हैं संगमयुग को। ज्यादा से ज्यादा सौ साल।

भाई ने पूछा – (दो हजार) छत्तीस में सौ साल पूरे होंगे ?

बाबा – हाँ, जी।

**A Brother asked:** Baba how much time is still left in the Confluence Age?

**Baba replied:** What a big trouble! Baba says that Confluence Age is a delightful Age (*suhaavnaa yug*), an Age of delight (*maujon ka yug*). Hm? No other Age is as auspicious as the Confluence Age at all. And here it has become a big ordeal!!! When would every second pass?

**The Brother asked:** How much time is still left?

**Baba replied:** Yes, yes, that is the matter. Hundred years have been mentioned for the Confluence Age - at the most hundred years.

**The Brother asked:** Will the hundred years get completed in thirty-six (i.e. 2036)?

**Baba replied:** Yes.

.....  
Note: The words in italics are Hindi words. Some words have been added in the brackets by the translator for better understanding of the translation.